

भिंड में मिलावटखोर एक्टिव: अटेर के बलारपुरा में पकड़ा नकली मावा, सवा लाख का माल जब्त



दीपावली त्योहार पर भिंड जिले में नकली मावा का कारोबार जोरों पर है। मिलावट खोरों में फूड सेफ्टी अफसरों का डर-भय नहीं है। मिलावट खोरी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जवानों को मैदान में उतरना पड़ा। ऐसा ही पिछले दो दिन में देखा गया। भिंड जिले के मिलावट खोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। रात के समय अटेर थाना पुलिस ने बलारपुरा में एक डेयरी पकड़ी जहां नकली मावा तैयार हो रहा था। इसके बाद फूड सेफ्टी अफसरों को बुलाया गया। छापामार कार्रवाई में डेयरी पर सवा लाख से अधिक का माल जब्त हुआ, इसके बाद डेयरी मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

भिंड जिले के अटेर थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव को मुखबिर ने सूचना दी कि बलारपुरा गांव में संचालित डेयरी पर नकली मावा का बड़ा कारोबार हो रहा है। यहां से क्विंटलों मावा इंदौर, आगरा, इटावा झांसी व उरई भेजा गया। मिलावट खोरों ने दिवाली पर लाखों रुपए का नकली मावा का कारोबार किया है।

इस सूचना पर थाना प्रभारी यादव ने पुलिस जवानों के साथ छापामार कार्रवाई की। यहां मावा तैयार होता मिला। इस बात की जानकारी फूड सेफ्टी अफसर रीना बंसल को दी गई। वो मौके पर पहुंची जिन्होंने मौके से पाम ऑयल के भरे और खाली टीन जब्त किए। इसके अलावा मौके पर तैयार 50 किलो से अधिक मावा जब्त कर सेम्पल भरे। पकड़े गए मावा की सवा लाख आंकी गई है। फूड सेफ्टी अफसर ने मावा के सेम्पल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। इसी समय फूड सेफ्टी अफसर की ओर से डेयरी संचालक बृजेश नरवरिया पुत्र महेंद्र नरवरिया निवासी बलारपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/bhind/news/fake-mawa-business-caught-in-aters-balarpura-goods-worth-125-lakh-seized-fir-130470119.html>